

# सूचित एवं सशक्त

**फाइनेंशियल  
इंडिपेंडेंस हब**



**एक स्वतंत्र एवं गोपनीयता  
सेवा जो ऐसे लोगों की सहायता  
करती है जिन्होंने वित्तीय  
उत्पीड़न सहा है ताकि वे पैसों के  
मामले में अधिक सशक्त बन  
सकें और भविष्य की योजना  
बना सकें।**



# फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हब



“वित्तीय उत्पीड़न का मामला आपके साथ भी पेश आ सकता है, भले ही आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों।

इसलिए यह सेवा आपको अपने जीवन को नियंत्रित रखने में मदद करती है।”

**आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हब टीम आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को विकसित करने के लिए आपकी सहायता करेगी, जिसमें शामिल है :**

- ✓ बेहतर वित्तीय कल्याण और निर्णय लेने के लिए कौशल एवं आत्मविश्वास विकसित करना
- ✓ स्वतंत्र रूप से बजट बनाना
- ✓ पैसे के साथ अपने संबंधों में सुधार करना
- ✓ पैसे की बचत करना
- ✓ बिलों का भुगतान करना और अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करना
- ✓ आपको अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से मिलवाना
- ✓ काम पर लौटने, अध्ययन करने या Centrelink के लिए रजिस्टर करने की तैयारी करना
- ✓ आपके लिए आवश्यक अन्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना या रेफर करना।

**“मैं पैसे के मामले में खुद को कमज़ोर मानता था पर अब सशक्त और आत्मविश्वास महसूस करता हूँ।”**

**यदि आपने वित्तीय उत्पीड़न का अनुभव किया है और अब अपने खातिर लंबे-समय की वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करने के लिए कारगर कदम उठाना चाहते/चाहती हैं, तो ऐसे में हम आपकी मदद करेंगे।**

- इस समस्या से अवगत एक टीम के साथ मिलकर काम करें। आप वित्तीय उत्पीड़न की अपनी कहानी या अनुभव को हमसे साझा करने या न करने का फैसला ले सकते/सकती हैं और हम उसकी कद्र करेंगे।
- मगर यदि आप साझा करना चाहें, तो हम आपकी बात सुनेंगे और उस पर यकीन करेंगे।
- हम आपसे उस अनुभव का कोई साक्ष्य प्रदान करने को नहीं कहेंगे।
- हम यह तय करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेंगे कि आपको किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत आमने-सामने बैठकर कोचिंग देना, जानकारी, उपकरण और संसाधन साझा करना तथा अन्य सेवाओं तक रेफर करने की सुविधा दी जा सकती है।

***“पैसों के मामले में मेरी चिंताओं को कम करने में इन्होंने काफ़ी मदद की और खुद की और अपने परिवार की जितनी अच्छी से अच्छी हो सहायता करने में सक्षम बनाया।”***

**आपका फाइनेंशियल  
इंडिपेंडेंस हब का  
सफ़र विशिष्ट  
होगा – बिल्कुल  
आपकी ही तरह।**

***“मुझे बदलने और सही  
फैसले लेने में मदद  
करते हुए।”***



## फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हब की सेवा सभी लिंग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने:

- सामाजिक या पारिवारिक उत्पीड़न के चलते वित्तीय उत्पीड़न का अनुभव किया है
- जो फिलहाल संकट में नहीं हैं
- जो आपके वित्तीय भविष्य पर विचार करने के लिए तैयार हैं
- जो 18 वर्ष की उम्र से बड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं

आपको एक स्थाई निवासी होने या आपके पास एक वीज़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है।

*“मैं सशक्त महसूस करता/  
करती हूँ क्योंकि मैंने  
अपने बजट का हिसाब  
करना सीख लिया है”*



यह सेवा मुफ्त, स्वतंत्र और ख़ासतौर से आपकी ज़रूरतों के मुताबिक है। इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। आपकी टीम आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समयसीमा की पहचान करने में आपकी मदद करेगी।

## यह किस प्रकार काम करता है:

कृपया [goodshep.org.au/FIH](https://goodshep.org.au/FIH)

पर जाकर एक पूछताछ फॉर्म भरें या शुरुआती बातचीत का एक सत्र बुक करने के लिए 1300 050 150 इस पर कॉल करें।

### शुरुआती बातचीत



1.

हमें अपने मौजूदा आर्थिक हालात, आवश्यकताओं एवं पैसों को लेकर अपने अनुभव के बारे में बताएं। हम आपसे यह पुष्टि करने को कहेंगे कि सामाजिक या पारिवारिक उत्पीड़न के चलते आपने वित्तीय उत्पीड़न सहा है, मगर इसके लिए आपको कोई प्रमाण देने या कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है।

2.



साथ मिलकर हम आपके लिए उपयुक्त सेवा के विकल्पों पर चर्चा करेंगे – साथ ही आपके लिए एक अच्छे फाइनेंशियल कोच का इंतज़ाम भी करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ती है, तो हम आपको गुड शेफर्ड की अन्य सेवा जैसे कि एक वित्तीय सलाहकार या सामुदायिक क़ानूनी केन्द्रों, पारिवारिक उत्पीड़न सेवाएं और सामुदायिक समर्थन जैसी बाहरी सेवाओं के लिए रेफ़र कर सकते हैं।

### वित्तीय कोचिंग



आपका फाइनेंशियल कोच वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने और आपको उनसे कितनी बार मिलना है, यह निर्धारित करने के लिए अपनी योजना बनाने हेतु आपके साथ मिलकर करेगा। हम आपसे तब तक मिलते रहेंगे जब तक आपको यह न लगने लगे कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।

# फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हब से आज ही संपर्क करें

## फ़ोन

1300 050 150

## ईमेल

FIH@goodshep.org.au

## वेबसाइट

[goodshep.org.au/FIH](https://goodshep.org.au/FIH)

*“यह एक शानदार और सशक्त समर्थन सेवा है। यह आपको पैसों के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाने और न केवल खुद में बल्कि आपके बच्चों एवं सभी पारिवारिक सदस्यों में भी बदलाव लाने में मदद करता है।*

